



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2007/पौष 18, 1928

No. 17]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2007/PAUSA 18, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2007

का.आ. 17(अ).—चाय नियमावली, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2008 तक चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (चाय नियंत्रण) की दिनांक 17 मार्च, 1954 की अधिसूचना सं. सा.नि.आ. 944 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 16 से 17, 21 से 23, 26, 27, 29 और 31 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

- | | | |
|---|--------|--|
| “16 श्री अर्जन साहू,
राजमाई टी एस्टेट, पो.ओ.-राजमाई
डिमाऊ, जिला-सिबसागर, असम | —सदस्य | चाय एस्टेटों और बागानों के मालिकों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1)(ग) के अंतर्गत नियुक्त। |
| 17 श्री निवेदिन थॉमस ए, सं. 11, मिल्लर स्ट्रीट,
बंगलौर, कर्नाटक | —सदस्य | चाय एस्टेटों और बागानों के मालिकों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1)(ग) के अंतर्गत नियुक्त। |
| 21 श्री सी. ए. कुरियन, महासचिव,
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स,
मुन्नार, केरल मार्फत-एआईटीयूसी कार्यालय,
मुन्नार-पो. ओ.-685612 | —सदस्य | चाय एस्टेटों/बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1)(घ) के अंतर्गत नियुक्त। |
| 22 श्री पी. ए. जोसफ, अध्यक्ष,
इंडियन नेशनल प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन
पो. बा. सं. 9, पी. ओ.-कुमिली
जिला-इडुकी, केरल-685612 | —सदस्य | चाय एस्टेटों/बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1)(घ) के अंतर्गत नियुक्त। |

23 श्री आलोक चक्रवर्ती "पुतुल घर", दुर्गागुरी पो.-प्रधान नगर, सिलीगुड़ी जिला दार्जीलिंग (प. बंगाल)	-सदस्य	चाय एस्टेटों/बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1)(घ) के अंतर्गत नियुक्त ।
26 श्री करण पॉल, अध्यक्ष, एपीजे सुरेन्द्रा ग्रुप, एपीजे हाऊस, 15, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-16	-सदस्य	चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1)(ज) के अंतर्गत नियुक्त ।
27 अध्यक्ष, भारतीय चाय एसोसिएशन, 4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (7वाँ तल), कोलकाता-1	-सदस्य	चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1) (ज) के अंतर्गत नियुक्त ।
29 श्री के. के. विश्वनाथन मास्टर, नारायणापुरम, थाजा मुंडा (पोस्ट), कैनिचिरा (वाया) वायनाड-673596	-सदस्य	चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1)(ज) के अंतर्गत नियुक्त ।
31 श्री के. वी. सुब्बारेड्डी, कोडापल्ली गांव चिंतामणि तालुक, जिला कोलार, कर्नाटक	-सदस्य	अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4(1)(ज) के अंतर्गत नियुक्त ।

[फा. सं. टी-49019/1/2004-बागान-(क)]

ओ. पी. आर्य, अपर सचिव

नोट :-मुख्य अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 1954 के सं. सा.नि.आ. 944 के तहत भारत सरकार, असाधारण भाग II, खण्ड 3, दिनांक 18 मार्च, 1954 में प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें संशोधन किया गया था :

- | | |
|---|--|
| 1. का.आ. 297 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 1990 | 16. का.आ. 500 (अ) दिनांक 16 जुलाई, 1997 |
| 2. का.आ. 483 (अ) दिनांक 30 मई, 1990 | 17. का.आ. 715 (अ) दिनांक 21 अगस्त, 1998 |
| 3. का.आ. 246 (अ) दिनांक 8 अप्रैल, 1991 | 18. का.आ. 236 (अ) दिनांक 8 अप्रैल, 1999 |
| 4. का.आ. 247 (अ) दिनांक 8 अप्रैल, 1991 | 19. का.आ. 83 (अ) दिनांक 28 जनवरी, 2000 |
| 5. का.आ. 727 (अ) दिनांक 24 अक्टूबर, 1991 | 20. का.आ. 7 (अ) दिनांक 10 जनवरी, 2001 |
| 6. का.आ. 105 (अ) दिनांक 3 फरवरी, 1992 | 21. का.आ. 325 (अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2001 |
| 7. का.आ. 356 (अ) दिनांक 25 मई, 1992 | 22. का.आ. 676 (अ) दिनांक 17 जुलाई, 2001 |
| 8. का.आ. 220 (अ) दिनांक 31 मार्च, 1993 | 23. का.आ. 1147 (अ) दिनांक 21 नवम्बर, 2001 |
| 9. का.आ. 364 (अ) दिनांक 8 जून, 1993 | 24. का.आ. 1281 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 |
| 10. का.आ. 997 (अ) दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 | 25. का.आ. 399 (अ) दिनांक 9 अप्रैल, 2002 |
| 11. का.आ. 252 (अ) दिनांक 26 मार्च, 1996 | 26. का.आ. 1346 (अ) दिनांक 24 नवम्बर, 2003 |
| 12. का.आ. 743 (अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 1996 | 27. का.आ. 960 (अ) दिनांक 30 अगस्त, 2004 |
| 13. का.आ. 805 (अ) दिनांक 20 नवम्बर, 1996 | 28. का.आ. 43 (अ) दिनांक 11 जनवरी, 2005 |
| 14. का.आ. 878 (अ) दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 | 29. का.आ. 487 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 |
| 15. का.आ. 17 (अ) दिनांक 7 जनवरी, 1997 | 30. का.आ. 1001 (अ) दिनांक 13 जुलाई, 2005 |

स्पष्टीकारक ज्ञापन

अन्य सदस्यों के नामों (क्र.सं. 18 और 25) को बाद में प्रकाशित किया जाएगा ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2007

S.O. 17 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), and in pursuance of rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons as Members of the Tea Board up to 31st March, 2008 with effect from the date of the publication of this notification and

directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Tea Control), number S.R.O. 944, dated the 17th March, 1954, namely :—

In the said notification, for serial numbers 16 to 17, 21 to 23, 26, 27, 29 and 31 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

- | | | |
|--|---------|--|
| 16. Shri Arjun Sahu, Rajmai Tea Estate, P.O. Rajmai, Demow, Distt. Sivasagar, Assam. | —Member | Representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under rule 4(1) (c). |
| 17. Shri Nivedith Thomas A, No.11, Milton Street, Bangalore, Karnataka. | —Member | Representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under rule 4(1) (c). |
| 21. Shri C.A. Kurien, General Secretary, All India Federation of Plantation Workers, Munnar, Kerala, C/o. AITUC office, Munnar, PO-685612. | —Member | Representing persons employed in Tea Estates/ Gardens under rule 4(1) (d). |
| 22. Shri P.A. Joseph, President, Indian National Plantation Workers Federation, P.B. No: 9, P.O. Kumily, Idukky Distt., Kerala - 685 612. | —Member | Representing persons employed in Tea Estates/ Gardens under rule 4(1) (d). |
| 23. Shri Alok Chakravarty, "Putul Ghar", Durgaguri, Post Pradhan Nagar, Siliguri, Distt. Darjeeling (West Bengal). | —Member | Representing persons employed in Tea Estates/ Gardens under rule 4(1) (d). |
| 26. Shri Karan Paul, Chairman, Apeejay Surendra Group, Apeejay House, 15, Park Street, Kolkata - 16. | —Member | Representing manufacturers of Tea under rule 4(1) (f). |
| 27. President, Tea Association of India, India Exchange, 4, India Exchange Place (7th Floor), Kolkata-I. | —Member | Representing manufacturers of Tea under rule 4(1) (f). |
| 29. Shri K.K. Viswanathan Master, Narayanapuram, Thaza Munda (Post), Kenichira (Via), Wayapad - 673 596. | —Member | Representing consumer of Tea under rule 4(1) (g). |
| 31. Shri K.V. Subbareddy, Kodapally Village, Chintamani Taluk, Distt. Kolar, Karnataka. | —Member | Representing other interests under rule 4(1) (h)". |

[F. No.T-49019/1/2004-Plant(A)]

O. P. ARYA, Addl. Secy.

Note : Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, dated the 18th March, 1954, vide S.R.O. No. 944, dated the 17th March, 1954 and subsequently amended vide following numbers :—

- | | |
|--|--|
| 1. S. O. 297 (E) dated 1 st April, 1990 | 9. S.O. 364 (E) dated 8th June, 1993 |
| 2. S.O. 438 (E) dated 30th May, 1990 | 10. S.O. 997 (E) dated 21st December, 1993 |
| 3. S.O. 246 (E) dated 8th April, 1991 | 11. S.O. 252 (E) dated 26th March, 1996 |
| 4. S.O. 247 (E) dated 8th April, 1991 | 12. S.O. 743 (E) dated 25th October, 1996 |
| 5. S.O. 727 (E) dated 24th October, 1991 | 13. S.O. 805 (E) dated 20th November, 1996 |
| 6. S.O. 105 (E) dated 3rd February, 1992 | 14. S.O. 878 (E) dated 17th December, 1996 |
| 7. S.O. 356 (E) dated 25th May, 1992 | 15. S.O. 17 (E) dated 7th January, 1997 |
| 8. S.O. 220 (E) dated 31st March, 1993 | 16. S.O. 500 (E) dated 16th July, 1997 |

- | | |
|---|--|
| 17. S.O. 715 (E) dated 21st August, 1998 | 24. S.O. 1281 (E) dated 31 st December, 2001 |
| 18. S.O. 236 (E) dated 8th April, 1999 | 25. S.O. 399 (E) dated 9th April, 2002 |
| 19. S.O. 83 (E) dated 28th January, 2000 | 26. S.O. 1346 (E) dated 24th November, 2003 |
| 20. S.O. 7 (E) dated 10th January, 2001 | 27. S.O. 960 (E) dated 30th August, 2004 |
| 21. S.O. 325 (E) dated 11th April, 2001 | 28. S.O. 43 (E) dated 11th January, 2005 |
| 22. S.O. 676 (E) dated 17th July, 2001 | 29. S.O. 487 (E) dated 1st April, 2005 |
| 23. S.O. 1147 (E) dated 21st November, 2001 | 30. S.O. 1001 (E) dated 13th July, 2005 |

Explanatory Memorandum

The names of the other members (Sl.Nos. 18 and 25) will be published subsequently.